



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 5 अगस्त, 2023

श्रावण 14, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यू०ओ०-85/छ:-पु०-9-23-167जी-09-न्याय-2

लखनऊ, 5 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प०आ०-431

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया जायेगा, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद एवं लखनऊ में होगा।

राज्यपाल अग्रतर नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी०बी०आई०, गाजियाबाद एवं लखनऊ में कार्यरत अधिकारी को, समस्त और साथ ही साथ समस्त लम्बित मामले, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिए तत्काल प्रभाव से सशक्त करती हैं और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का त्याग किये जाने पर पद में उनके उत्तरवर्ती और साथ ही साथ समस्त लम्बित मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेंगे।

अनुसूची

क्रम- संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	श्रीमती नीतु पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, न्यायालय संख्या-3, गाजियाबाद	आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, फिरोजाबाद और शामली
2	श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0 (केन्द्रीय), लखनऊ	कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी एवं कासगंज (कांशीराम नगर)

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-85/VI-P-9-23-167G-09-Nyay-2, dated August 9, 2023:

No. U.O.-85/VI-P-9-23-167G-09-Nyay-2

Dated Lucknow, August 5, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint from the date of their taking over charge, the Additional District Judge mentioned in Column-2 of the Schedule below as Special Judges for the areas mentioned in Column-4 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act in which hereinafter charge sheets are filed in their Courts by Special Police Establishment of the Government of India, and to direct that such other cases arising within the said areas in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special Police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed of by them and their Court shall be designated as Specified in Column-3 of the said Schedule with headquarters at Ghaziabad and Lucknow.

The Governor is further pleased to empower the officer, mentioned in Column-2 of the Schedule below, holding the Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad and Lucknow to dispose of all the pending cases as well as the cases which may be filed in future for the area of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special Court, his successor in office will try and dispose of all the pending cases all as well as cases which may be filed in future for the area of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule .

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Judge	Name of the Court	Area of Jurisdiction
1	2	3	4
1	Smt. Neetu Pathak, Additional District and Sessions Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no.-3, Ghaziabad	Agra, Muzaffarnagar, Baghpat, Meerut, Firozabad and Shamli
2	Sri Ravindra Kumar Dwivedi, Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Special Court, Anti corruption, CBI (Central), Lucknow	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Kushinagar, Kaushambi and Kasganj (Kansi Ram Nagar)

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.